



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1735]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 23, 2010/भाद्र 1, 1932

No. 1735]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 23, 2010/BHADRA 1, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2010

का.आ. 2052(अ).—केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3265(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2009 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तमिलनाडु राज्य के मदुरै जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 409.000 कि.मी. से 427.000 कि.मी. (बंगलौर-सेलम-मदुरै सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 11 मार्च, 2010 को "दि न्यू इंडियन एक्सप्रेस" और "डेली थाँथी" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के 409.000 कि.मी. से 427.000 कि.मी. तक (बंगलौर-सेलम-मदुरै सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मदुरै	वादिपट्टी	(1). दानिचियग	318/1ए2ए	निजी	नम	208	आर. मुथु वीरन पुत्र राजुथेवर
				318/1बी1ए	निजी	नम	55	मोहन पुत्र पुलुसामिकोनर-1 जेगादीसन पुत्र थिरुवेंकटाकोनर-2
				318/1बी1ए	निजी	नम	119	मोहन पुत्र पुलुसामिकोनर-1 जेगादीसन पुत्र थिरुवेंकटाकोनर-2
				318/1बी1बी	निजी	नम	10	आर. कन्नन पुत्र रासु
				318/1बी2	निजी	नम	17	के. विजयावीरप्पण पुत्र करुप्पनन सेरवई
				318/2ए1ए	निजी	नम	379	के. संथाकृष्णन पुत्र करुप्पनकोनर
				318/2ए1बी	निजी	नम	50	आर. कन्नन पुत्र रासु
				318/2ए2	निजी	नम	50	के. विजयावीरप्पण पुत्र करुप्पनन सेरवई
				341/5बी	निजी	शुष्क	50	कामाक्षी महेश बोस पुत्र सुबाष बोस
				341/6बी	निजी	शुष्क	100	के.अजीथ बाबु पुत्र बालासुब्रमणियन
				344/3बी	निजी	नम	100	गीथाल्दमी पत्नी अरुणाचलम-1 राजेशकुमार पुत्र अरुणाचलम-2 कार्तिकेयन पुत्र अरुणाचलम-3 थंगाराज पुत्र अरुणाचलम-4
				525/2ए1ए	निजी	नम	406	एस. संथानम, पुत्र चिन्नईया कोनर
				525/2ए1ए	निजी	नम	342	एस. संथानम, पुत्र चिन्नईया कोनर
				525/3बी	निजी	नम	73	संकरापंडियन, पुत्र रथिनावेल चेट्टिआर
				525/4बी	निजी	नम	73	एस. पंडियन, पुत्र सुंदरारासु चेट्टियार

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				525/2ए2बी	निजी	नम	15	बालागुरु पुत्र चैल्लइया सरवई
				525/8	निजी	नम	20	पाउलराज, पुत्र ईरुथायाराज
				536/6	निजी	मनई	70	नारायण राज, पुत्र पार्थसारथी नायडु
				536/7	निजी	मनई	13	वैकट रामानुजम, पुत्र थिरुवैकट अय्यर-1 श्री रामानुजम पुत्र थिरुवैकट अय्यर-2 रैगईया पुत्र थिरुवैकट अय्यर-3
				536/12ए	निजी	मनई	89	नारायण राज, पुत्र पार्थसारथी नायडु
			(2). चिन्नामनयाक्कनपट्टी	12/1	निजी	शुष्क	250	वैकटरमण, पुत्र कल्याणसुंदम
				12/2	निजी	शुष्क	350	करपागम पत्नी कल्याणसुंदम
				12/5ए	निजी	शुष्क	100	वैकटरमण, पुत्र कल्याणसुंदम
				13/1बी	निजी	शुष्क	250	करपागम पत्नी कल्याणसुंदम
				13/2बी2	निजी	शुष्क	1150	देवराज पुत्र गोविंदा रेड्डियार
				14/2बी2ए	निजी	शुष्क	150	देवराज पुत्र गोविंदा रेड्डियार
			(3). कुलासेकरनकोट्टई	150/2ए	निजी	शुष्क	300	रामासामी थेवर, पुत्र वेल्लईचामी-1 रामाकोनर, पुत्र चिन्नईया कोनर-2
				150/7ए1	निजी	शुष्क	450	रामाकोनर, पुत्र चिन्नईया कोनर
				151/1बी1	निजी	शुष्क	850	सिवा, पुत्र सिवालिगाकोन-1 गार्जियन मदर सेल्लामल-2
				151/5ए2	निजी	शुष्क	50	धुरईपडी पुत्र एम.सी. मलाईकोनर
				151/8ए1ए	निजी	शुष्क	600	रामेश्वरन-1 थेवरम-2 पुत्र देवित
				151/8ए2	निजी	शुष्क	50	सिवा, पुत्र सिवालिगाकोन-1 गार्जियन मदर सेल्लामल-2
				152/4बी1	निजी	शुष्क	400	ईनगो, पुत्र रामाकोनर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				152/6ए1	निजी	शुष्क	250	सिवा, पुत्र सिवालिगाकोन-1 गार्जियन मदर सेल्लामल-2
				152/9ए1	निजी	शुष्क	250	ईनगो, पुत्र रामाकोनर
				152/10ए1	निजी	शुष्क	700	पलानीसामी, पुत्र नाचीमुथु
				153/6ए1ए	निजी	शुष्क	150	आर.ई. गुरुबंगारूसामी
				153/6बी 1	निजी	शुष्क	50	आर.सी. मिसिन
				153/7सी1	निजी	शुष्क	50	आर.सी. दायोसिसिन ट्रेजरर अरुद थनथई पेनाटिक्ट अम्बुरोस राज
				153/7ई1ए	निजी	शुष्क	50	आर.सी. मिसिन
				159/3ए1ए	निजी	शुष्क	50	वी. सेरुवाकोन-1 सनगुकोनर-2
			(4). थाथमपट्टी	202/5ए1	निजी	नम	315	रामासामी सेरवई पुत्र कुरुप्पईया सेरवई
				203/2	निजी	नम	1000	1. सिवाबालन 2. दुरईमूर्थी 3. वैकटासालम 4. अलागेसन पुत्र सिवासुब्रमणियन

[फा. सं. भारांप्रा/11013/2010-एलए/नोटिफ/पीआईयू-मदुरै]

एस. एस. गुलिया, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2010

S.O. 2052(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 3265(E), dated the 22nd December, 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No. 7 on the stretch of land from km. 409.000 to km. 427.000 (Bangalore-Salem-Madurai Section) in District Madurai in the State of Tamil Nadu;

And whereas the substance of the said notification has been published in "The New Indian Express" and "Dhinathanthi", both dated the 11th March, 2010 under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on the publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure falling within the stretch of land from Km . 409.000 to Km. 427.000 (Bangalore - Salem - Madurai Section) of National Highways No.7 in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in square meters)	Name of the land owner/Interested persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Madurai	Vadipatti	(1). Thanichiyam	318/1A2A	Private	Wet	208	R.Muthu Veeran S/o Rajuthevar
				318/1B1A	Private	Wet	55	Mohan S/o Palusamikonar - 1 Jegadeesan S/o Thiruvencatakonaar - 2
				318/1B1A	Private	Wet	119	Mohan S/o Palusamikonar - 1 Jegadeesan S/o Thiruvencatakonaar - 2
				318/1B1B	Private	Wet	10	R.Kannan S/o Rasu
				318/1B2	Private	Wet	17	K.Vijayaveerappan S/o Karuppanan Servai
				318/2A1A	Private	Wet	379	K.Santhakrishnan S/o Karuppanakonar
				318/2A1B	Private	Wet	50	R.Kannan S/o Rasu
				318/2A2	Private	Wet	50	K.Vijayaveerappan S/o Karuppanan Servai
				341/5B	Private	Dry	50	Kamatchi Mahesh Bose S/o Subash Bose
				341/6B	Private	Dry	100	K.Ajith Babu S/o Balasubramanian
				344/3B	Private	Wet	100	Geethalakshmi W/o Arunachalam - 1 Rajeskumar S/o Arunachalam - 2 Karthikeyan S/o Arunachalam - 3 Thangaraj S/o Arunachalam - 4
				525/2A1A	Private	Wet	406	S. Santhanam, S/o. Chinnaiah Konar
				525/2A1A	Private	Wet	342	S. Santhanam, S/o. Chinnaiah Konar
				525/3B	Private	Wet	73	Sankarapandian, S/o. Rathinavel Chettiar
				525/4B	Private	Wet	73	S. Pandian, S/o. Sundararasu Chettiar
				525/2A2B	Private	Wet	15	Balaguru S/o. Chellaiah Servai
				525/8	Private	Wet	20	Paulraj, S/o. Irudhayaraj
				536/6	Private	Manai	70	Narayana Raj, S/o. Parthasarathi Naidu

330546/1002

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				536/7	Private	Manai	13	Venkata Ramanujam, S/o.Thiruvenkata Ayyar-1 Sri Ramanujam S/o.Thiruvenkata Ayyar-2 Rengaiiah S/o.Thiruvenkata Ayyar-3
				536/12A	Private	Manai	89	Narayana Raj S/o. Parthasarathi Naidu
			(2). Chinnama- naickanpatti	12/1	Private	Dry	250	Venkatraman, S/o Kalyanasundaram
				12/2	Private	Dry	350	Karpagam W/o Kalyanasundaram
				12/5A	Private	Dry	100	Venkatraman, S/o Kalyanasundaram
				13/1B	Private	Dry	250	Karpagam W/o Kalyanasundaram
				13/2B2	Private	Dry	1150	Devaraj S/o Govinda Reddiar
				14/2B2A	Private	Dry	150	Devaraj S/o Govinda Reddiar
			(3). Kulasekarankottai	150/2A	Private	Dry	300	Ramasamy Thevar, S/o. Vellaichamy-1 Ramakonar, S/o. Chinnaiah Konar-2
				150/7A1	Private	Dry	450	Ramakonar, S/o. Chinnaiah Konar
				151/1B1	Private	Dry	850	Siva, S/o.Sivalingakone-1 Guardian Mother Sellammal-2
				151/5A2	Private	Dry	50	Dhuraipandi S/o. M.C. Malaikonar
				151/8A1A	Private	Dry	600	Rageswaran-1 Thevaram-2 S/o. Devit
				151/8A2	Private	Dry	50	Siva, S/o.Sivalingakone-1 Guardian Mother Sellammal-2
				152/4B1	Private	Dry	400	Ilango, S/o. Ramakonar
				152/6A1	Private	Dry	250	Siva, S/o.Sivalingakone-1 Guardian Mother Sellammal-2
				152/9A1	Private	Dry	250	Ilango, S/o. Ramakonar
				152/10A1	Private	Dry	700	Palanisamy, S/o. Nachimuthu
				153/6A1A	Private	Dry	150	R.E. Gurubangarusamy
				153/6B1	Private	Dry	50	R.C. Misin
				153/7C1	Private	Dry	50	R.C. Dayosisin Treasurer Arud Thanthai Penatit Amburose Raj.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				153/7E1A	Private	Dry	50	R.C. Misin
				159/3A1A	Private	Dry	50	V. Seruvakone-1 Sangukonar-2
			(4). Thathampatti	202/5A1	Private	Wet	315	Ramasamy Servai S/o. Karuppiah Servai
				203/2	Private	Wet	1000	1. Sivabalan 2. Duraimoorthy 3. Venkatasalam 4. Alagesan S/o Sivasubramanian

[F.No. NHAI/11013/2010-LA/Notif/PIU-Madurai]

S. S. GULIA, Director